

CLASS-2
SUBJECT-2ND LANGUAGE HINDI

CHAPTER-6

चतुर बीरबल

WORKSHEET

सार:-

● बच्चों आज हम एक ऐसे इंसान का किस्सा पढ़ेंगे जो अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। बच्चों आपने बीरबल का नाम तो सुना ही होगा। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। वह अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के बल पर मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे देता था।

□ एक बार की बात है एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा कि बीरबल तुम तो बहुत चतुर और बुद्धिमान हो तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर

दो। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि हमारे राज्य में अंधों की संख्या ज्यादा है या देख सकने वालों की। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल ने कहा कि महाराज हमारे राज्य में अंधों की संख्या ज्यादा है। बादशाह अकबर ने बीरबल को अपनी बात साबित करने के लिए कहा।

- बीरबल बादशाह अकबर की बात मान गया और उसने कहा कि महाराज मैं अपनी बात को साबित करके दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल दो आदमियों के साथ बाजार पहुँचा। बीरबल ने उन दोनों आदमियों के हाथ में कलम और कागज देकर उन्हें अपने पास बैठा लिया और खुद चारपाई बुनने बैठ गया। उनके पास से जो भी आदमी गुजरता वो यही पूछता कि बीरबल आप क्या कर रहे हैं? बीरबल के पास बैठा एक आदमी सवाल पूछने वाले लोगों के नाम एक कागज में लिखता गया और सवाल पूछने वाले लोगों की सूची लंबी होती चली गई।

□ जब बादशाह अकबर को बीरबल की इस हरकत का पता चला तो वह भी वहाँ चले गए और उन्होंने बीरबल

से पूछा कि बीरबल तुम यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने बादशाह अकबर के सवाल का जवाब नहीं दिया और उसने उस व्यक्ति को बादशाह अकबर का नाम सूची में लिखने के लिए कहा। अकबर बादशाह ने उस आदमी के हाथ से वह कागज दिया जिसमें ऊपर लिखा था अंधे लोगों की सूची। बादशाह अकबर ने देखा कि उसमें बहुत लोगों के नाम हैं परंतु अपना नाम सबसे ऊपर देखकर वह बहुत हैरान हो गए।

- बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल से पूछा कि उस सूची में उनका नाम क्यों लिखा है तो बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि हज़ूर आप तो देख ही रहे हैं कि मैं चारपाई बुन रहा हूँ फिर भी आप पूछ रहे हैं। फिर बादशाह अकबर ने दूसरे व्यक्ति के हाथ से कागज लिया उसमें लिखा था देख रखने वालों की सूची परंतु उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं था।

□ बीरबल धीरे-धीरे मुस्कराते हुए अकबर बादशाह से बोले कि हज़ूर अब तो आप मेरी बात मानते हैं ना कि आपके

राज्य में अंधों की संख्या अधिक है। बीरबल की चतुराई देखकर अकबर बादशाह उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके।

Q1. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए:-

- (a) बुद्धिमान-
- (b) उत्तर-
- (c) संख्या-
- (d) सिद्ध-
- (e) सूची-

Q2. किसने- किससे कहा:-

- (a) क्या तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो?
- (b) इनमें मेरा नाम क्यों लिखा है?
- (c) अरे बीरबल! तुम या क्या कर रहे हो?

Q3. एक शब्द में उत्तर दें:-

- (a) कौन बहुत चतुर और बुद्धिमान था?
- (b) अकबर कौन था?
- (c) कौन कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे देता था?
- (d) कौन- सी सूची में किसी का भी नाम नहीं लिखा था?
- (e) कौन- सी सूची बहुत लंबी थी?

EXERCISES FROM THE BACK OF THE LESSON

PAGE NO:-30

Q2. सोचें और बोलें:-

(iii)

PAGE NO.30:-

सोचें और लिखें:-

(i), (ii) (iii)

PAGE NO.31:-

भाषा- मंथन:-

Q1. सही शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाएँ:-

Q2. 'उ' अथवा 'ऊ' की मात्रा लगाकर शब्द फिर से लिखें:-